



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 27 सितम्बर, 2021

आश्विन 5, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गोपन अनुभाग-1

संख्या 1/2/1/2017-सी०एक्स०(1)

लखनऊ, 27 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

उत्तर प्रदेश के माननीया राज्यपाल ने, मा० मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से, मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार) तथा राज्य मंत्रीगण को कार्य-प्रभार आवंटन विषयक समसंख्यक अधिसूचना/विविध दिनांक 22 मार्च, 2017, दिनांक 24 मार्च, 2017 दिनांक 21 मई, 2019, दिनांक 17 जून, 2019, दिनांक 22 अगस्त, 2019 एवं दिनांक 29 अगस्त, 2019 तथा समसंख्यक अधिसूचना/नियुक्ति दिनांक 26 सितम्बर, 2021 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी को आवंटित वर्तमान कार्य-प्रभार में से प्राविधिक शिक्षा विभाग को हटाते हुए नवनियुक्त मा० मंत्री, श्री जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग आवंटित किये जाने तथा मा० राज्य मंत्री डॉ० जी०एस० धर्मेश को आवंटित वर्तमान कार्य प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग हटाते हुए उन्हें खाद्य प्रसंस्करण, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग आवंटित किये जाने तथा नवनियुक्त मा० राज्य मंत्रीगण को निम्नानुसार विभाग आवंटित किये जाने के आदेश दिये हैं। तदनुसार समसंख्यक अधिसूचना/विविध की अनुसूची मंत्री/राज्य मंत्री का संशोधित स्वरूप अब निम्नवत् होगा :-

**अनुसूची**  
**मंत्री**

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग या विषय
1	2	3	4
1	श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य मंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, कर निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप, प्रोटोकाल, सैनिक कल्याण, होमगार्डस तथा प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गृह</li> <li>2. आवास एवं शहरी नियोजन</li> <li>3. राजस्व</li> <li>4. खाद्य एवं रसद</li> <li>5. नागरिक आपूर्ति</li> <li>6. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन</li> <li>7. अर्थ एवं संख्या</li> <li>8. भूतत्व एवं खनिकर्म</li> <li>9. कर निबन्धन</li> <li>10. कारागार</li> <li>11. सामान्य प्रशासन</li> <li>12. सचिवालय प्रशासन</li> <li>13. गोपन</li> <li>14. सतर्कता</li> <li>15. नियुक्ति</li> <li>16. कार्मिक</li> <li>17. सूचना</li> <li>18. निर्वाचन</li> <li>19. संस्थागत वित्त</li> <li>20. नियोजन</li> <li>21. राज्य सम्पत्ति</li> <li>22. नगर भूमि</li> <li>23. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय</li> <li>24. प्रशासनिक सुधार</li> <li>25. कार्यक्रम कार्यान्वयन</li> <li>26. राष्ट्रीय एकीकरण</li> <li>27. अवस्थापना</li> <li>28. भाषा</li> <li>29. वाह्य सहायतित परियोजना</li> <li>30. अभाव</li> <li>31. सहायता एवं पुनर्वास</li> <li>32. लोक सेवा प्रबन्धन</li> <li>33. किराया नियंत्रण</li> <li>34. उपभोक्ता संरक्षण</li> <li>35. बॉट माप</li> <li>36. प्रोटोकाल</li> <li>37. सैनिक कल्याण</li> <li>38. होमगार्डस</li> <li>39. प्रान्तीय रक्षक दल</li> <li>40. नागरिक सुरक्षा।</li> </ol>

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग या विषय
1	2	3	4
XXX	XXX	XXX	XXX
13	विलोपित	विलोपित	विलोपित
XXX	XXX	XXX	XXX
25	विलोपित	विलोपित	विलोपित
26	श्री जितिन प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा	प्राविधिक शिक्षा

**राज्य मंत्री**

XXX	XXX	XXX	XXX
15	विलोपित	विलोपित	विलोपित
16	डॉ जी0एस0 धर्मेश	खाद्य प्रसंस्करण, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन।	1. उप मुख्य मंत्री के साथ सम्बद्ध। 2. मुख्य मंत्री के साथ सम्बद्ध।
XXX	XXX	XXX	XXX
23	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार	राजस्व।	मुख्य मंत्री के साथ सम्बद्ध।
24	श्री पल्लूराम	सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा।	मुख्य मंत्री के साथ सम्बद्ध।
25	डा0 संगीता बलवन्त	सहकारिता।	सहकारिता मंत्री के साथ सम्बद्ध।
26	श्री संजीव कुमार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री के साथ सम्बद्ध।
27	श्री दिनेश खटीक	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण।	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के साथ सम्बद्ध।
28	श्री धर्मवीर सिंह	औद्योगिक विकास।	औद्योगिक विकास मंत्री के साथ सम्बद्ध।

आज्ञा से,  
राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव।

-----  
संख्या 1/2/1/2017-सी0एक्स0 (1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-उत्तर प्रदेश की मा0 राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव।
- 2-मा0 मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण, समस्त मा0 मंत्री, समस्त मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं समस्त मा0 राज्य मंत्री के निजी सचिव।
- 3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4-शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 5-अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव।
- 7-सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
- 8-राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9-उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष।
- 10-महालेखाकार, तृतीय, जी0ए0-1 अनुभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आज्ञा से,  
कृष्ण गोपाल,  
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 363 राजपत्र-2021-(823)-588 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।  
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 4 सा0 गोपन-2021-(824)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।